



Futuristic Solutions Limited

CIN : L74899DL1983PLC016586

May 19th, 2022

BSE Limited
Floor 25, P.J.Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

DSE Limited
DSE House, 3/1 Asaf Ali Road
New Delhi 110002

REF: SCRIP CODE: 534063

Sub: Newspaper advertisement for intimation of transfer of equity shares to IEPF

Dear Sir/ Ma'am,


In accordance with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, transfer and Refund Rules, 2016(as amended) and pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015 we are enclosing herewith, copies of newspaper advertisements published in Financial Express (English)and Jansatta (Hindi)Newspaper on 19th Of May,2022 for the attention of shareholders of the Company in respect to transfer of equity shares into Investor Education and Protection Fund Authority in respect of which dividend have not been claimed /paid for seven consecutive years or more.

This is for your information/records.

Thanking You

Yours Faithfully

For & on Behalf of **Futuristic Solutions Limited**



Nupur Beri
(Company Secretary)

Notice is hereby given that the **SAMRAT VIDEO VISION PRIVATE LIMITED** has commenced voluntary liquidation on 17th May 2022

The stakeholders of **SAMRAT VIDEO VISION PRIVATE LIMITED** are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 16th June 2022, to the liquidator at the address mentioned against item 7. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 19.05.2022
Place: New Delhi

Sd/-
PUNEET SACHDEVA
Liquidator, Samrat Video Vision Private Limited
Reg. No.: IBB/I/A-001/IP-P01124/2018-2019/11821

FUTURISTIC SOLUTIONS LIMITED

CIN: L74899DL1983PLC016586
Regd. Office: M-50, IInd Floor, M-Block Market, Greater Kailash-1, New Delhi-110048
Website: www.fsl.co.in Fax: 011-2925860, Ph: 011-41630436, 41634701

NOTICE TO SHAREHOLDERS
Sub: Transfer of Equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund Rules), 2016, the Company is mandated to transfer the Dividend for the Financial Year 2014-15 which remained unclaimed for a period of seven years to IEPF Authority. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

Adhering to the requirements set out in the Rules, the Company has already communicated individually, the concerned shareholder whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the Financial Year 2022-23 for taking appropriate action.

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Authority on its website www.fsl.co.in. Shareholders concerned may refer to the website of the Company to verify the details of the shares liable to be transferred to the IEPF Authority.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares if any can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate in lieu of original share certificate held by them for the purpose of dematerialization and transfer of shares to IEPF Authority as per the Rules and upon such issue, the original share certificate which stand registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by August 20, 2022 the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, dematerialize and transfer the shares to IEPF Authority by way of corporate action by the due date as per procedure stipulated in the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Registrar and Transfer Agents of the Company, Beetal Financial & Computer Services Pvt Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi - 110062 Ph. 011-29961281-283, 26051061, 26051064 Fax 011-29961284.

For Futuristic Solutions Limited
Sd/-
Mandeep Sandhu
(Managing Director)
DIN: 00115301
Place: New Delhi
Date: 18.05.2022

Exchange: 97	Bank Name: HDFC BANK LTD.	RS. 1,00,000/-	4:00 pm
Place: New Delhi	Account No. 50200049383517	Bid Increase Amount: Rs. 10,000/-	(With unlimited auto extension clause in case of bid in last 5 minutes before closing, if required)
Date: 19/05/2022	IFSC Code: HDFC0000273		
	Branch Name: VASANT KUNJ, NEW DELHI		

on any property. However, the intending bidders should make their own enquiries regarding the rights/ dues/ effecting the property, prior to submitting their bid. The bank or any representation of the bank. The property is being sold with all the liabilities. Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party

specification before submitting the bid. The inspection of property put on

Mr. N. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.

Required to get the copies of the following documents uploaded in the Web Portal: i) NEFT/RTGS Challan or Demand Draft; ii) Copy of PAN Card; iii) Proof of Identity (Passport etc.); without which the Bid is liable to be rejected. UPLOADING IS MANDATORY ON THE WEBSITE (www.bankeauctions.com) AFTER DULY FILLED UP & SIGNING IS REQUIRED.

Mr. N. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
Mrs. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
(Prospectus) Petrochem building, Building No. 301, Gurgaon, Haryana. Pin: 122015. Contact: 01297291981/124 / 1125 / 1126, Sales Enquiries : Vinod Chauhan Email : vinod@bankeauctions.com Contact Authorized Officer: Mr. Samay Kochhar, Mobile No. 9971804797

and required documents (mentioned in Point No.3) on/ before 21.06.2022. The user ID & Password of their own, shall be eligible for participating in the e-Auction process.

Mr. N. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
Mrs. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
(Prospectus) Amount' (mentioned above) or its multiple and in case bid is placed during the e-Auction process, the bid shall be extended for 5 minutes (each time till the closure of e-Auction process), below the Reserve Price) on the closure of the e-Auction Process shall be binding on the bidder.

consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The EMD shall be 25% of the sale price, adjusting the EMD already paid, within 24 hours of the closing of the e-Auction process. The EMD shall be refunded to the successful bidder, the amount already deposited by the offer shall be used to pay the successful bidder, the amount already deposited by the offer shall be used to pay the successful bidder, the amount already deposited by the offer shall be used to pay the successful bidder.

Mr. N. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
Mrs. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
(Prospectus) prior to the date of e-Auction. Neither the Authorised Officer/ Bank nor the Auctioneer shall be responsible for the technical well equipped for participating in the e-Auction process.

Mr. N. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
Mrs. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
(Prospectus) Surges, fee etc. and also all the statutory/ non-statutory dues, taxes, rates, and other charges payable by the bidder.

Mr. N. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
Mrs. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
(Prospectus) the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone/ cancel the e-Auction process.

Mr. N. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
Mrs. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
(Prospectus) in the Web Portal of M/s. C1 India Pvt. Ltd., https://www.bankeauctions.com

Mr. N. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
Mrs. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
(Prospectus) Bank Finance (India) Limited nor Service provider will be responsible for any loss or damage to the bidder's bid. Bidders are requested to make all necessary arrangements / alternatives such as to participate in the auction successfully.

UNDER THE SARFAESI ACT, 2002
Mr. N. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
Mrs. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
(Prospectus) No date interest and ancillary expenses before the date of e-Auction, failing which the bidder shall be liable to pay the same.

Mr. N. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
Mrs. S. (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering on the website of the bank through NEFT/RTGS in the account mentioned above.)
(Prospectus) Authorised Officer
ART Housing Finance (India) Limited

आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट
 सदर बाजार रोड, दिल्ली कैंट-110010
 www.apsdelhiantt.com, 25693777, 25692720

निविदा सूचना
 वाटर कूलर क्रय के लिए पेशेवर विशेषज्ञता वाली फर्मों/उत्केदारों/विक्रेताओं से मुहुरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विनिर्देश के साथ आरएफपी स्कूल की वेबसाइट www.apsdelhiantt.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण रूप से भरे गए निविदा फॉर्म को आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली कैंट के पक्ष में आरएफपी के अनुसार डीडी (निविदा फॉर्म शुल्क और ईएमडी) सहित दिनांक 08 जून 2022 को 1030 बजे तक, एपीएस, दिल्ली कैंट में जमा किया जाना चाहिए। किसी भी प्रश्न के लिए एपीएस दिल्ली कैंट से फोन नं. 25693777, 8700817317 पर संपर्क करें।

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: 318, डीएलएफ मेनोलीयास, सेक्टर-42, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम (हरियाणा) 122002 और कॉर्पोरेट कार्यालय: यूनिट 809-815, 8 वीं मंजिल, टॉवर-ए, इण्डियन एयर डिजिटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-61, गुरुग्राम - 122002 (हरियाणा) सीआईएन: U65922HR12016PTC057984

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
 निम्नलिखित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नाली बिक्री सूचना

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उधारकर्ता/ओ और गारंटर (ओ) का नाम और पता	1. नीलामी की तिथि और समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की ईएमडी 3. बोली वृद्धि
अनिल चौरसिया पुत्र श्री मोती लाल चौरसिया शिवम कुमार पुत्र अनिल चौरसिया कुमुद चौरसिया पत्नी अनिल श्री का पता - निवासी: एएसएफ-4, खसरा नं. 1303, गांव, पीएन. विहार, लोनी, जिला: जयपुर, यू.पी. [लैंड मार्क-सीएनएस वारिका के पास] चौकड़ी- पूर्ण - रोड 18 फीट, परिचय- प्लॉट नंबर 18 रोड 19, उत्तर- प्लॉट नंबर 16 और दक्षिण-प्लॉट नंबर 13.	1) नीलामी की तिथि: 21.06.2022 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असमिता विस्तार के साथ 2) कंबाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 16.06.2022 को शाम 7:00 बजे तक (आईएसटी) 3) निरीक्षण की तिथि: 17.06.2022 को सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच (आईएसटी)	आरक्षित मूल्य: रु. 7,12,777/- बोली पर जमा राशि: रु. 71,277/- बोली वृद्धि - रु. 15,000/- और ऐसे गुणकों में।

TECHNOFAB ENGINEERING LIMITED
 पंजीकृत कार्यालय: 913, हेमकुंत चैंबर, 89 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019,
 सीआईएन: L74210DL1971PLC005712
 दूरभाष: +91-11-2641-1931 / 2641-5961
 ईमेल: cs@technofabengineering.com
 वेबसाइट: www.technofabengineering.com

सूचना
 सूचित करना है कि 31 मार्च 2022 को प्राप्त तिमाही और वर्ष के अंत के वित्तीय प्रमाणों पर विचार करने में और अनुमोदन करने के लिए कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में 24 मई 2022 को एक बोर्ड बैठक होने वाली है। कृपया न दें कि ट्रेडिंग विंडो 26 मई 2022 तक वित्त व्यक्तियों के लिए बंद रहेगी।

MEDICAMEN BIOTECH LTD.
 Regd. Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi - 110019
 (CIN: L74899DL1993PLC056594)
 Website: www.medicamen.com
 Email: cs@medicamen.com

NOTICE
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Meeting of Directors of Medicamen Biotech Limited was held on Wednesday, May 25, 2022, at Chiranjiv Tower, 43 Nehru Place New Delhi-19, inter alia to consider, approve and take record the Audited Financial Results (alone & Consolidated) for the quarter ending on March 31, 2022 and to recommend Final Dividend on Equity Shares of Company for the Financial Year 2021-22.

प्यूचुरिस्टिक सॉल्यूशन्स लिमिटेड
 CIN: L74899DL1983PLC016586

पंजी. कार्यालय: एम-50, II रा तल, एम-ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
 वेबसाइट: www.fsl.co.in, फैक्स: 011-2925860, फोन: 011-41630436, 41634701

शेयरधारकों के लिये सूचना
विषय: निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण

एतद्वारा शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड नियमावली), 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी को वित्त वर्ष 2014-15 के लिये लाभांश जो सात वर्षों की अवधि तक दवा-रहित रहा है, को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरण करना अनिवार्य है। तत्स्थानीय शेयरों को भी जिस पर लगातार सात वर्षों से लाभांश दवा-रहित रहा है, को नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जायेगा।

नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कम्पनी ने उन सभी शेयरधारकों को आवश्यक कार्रवाई के लिये व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है जिनको शेयरों का वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाना है।

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों तथा आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरण के लिए नियत शेयरों के विवरणों को अपनी वेबसाइट www.fsl.co.in पर अपलोड कर दिया है। संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित की जाने वाली शेयरों के विवरणों की जांच करने के लिये कम्पनी की वेबसाइट देख सकते हैं। शेयरधारक ध्यान रखें कि नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर वे ऐसी शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभांश यदि कोई हो, सहित आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित दवा-रहित लाभांश तथा शेयरों दोनों को व्यापक प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले संबंधित शेयरधारकों जिनको शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाना है, ध्यान रखें कि डिमेटरियलाइजेशन तथा नियमावली के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र को जगह नया शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा उसे जारी करने के बाद उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा अधिचारीय माने जायेगा। शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि उसको वेबसाइट पर अपलोड की गई विवरणों को नियमावली के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा नये प्रमाण पत्र जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

यदि 20 अगस्त, 2022 तक संबंधित शेयरधारकों से कम्पनी को कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो नियमावली में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन के उद्देश्य से कम्पनी नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नियत तिथि तक कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा शेयरों को डिमेटरियलाइज करेगी तथा आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित करेगी।

यदि विषय वस्तु तथा नियमावली पर शेयरधारकों का कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एग्जैक्ट्स बीटल फाइनेंसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्रा. लि., बीटल हाउस, उरा तल, 99, मदनगरी, एलएलसी के पीछे, नई दिल्ली- 110062, फोन : 011-29961281-283, 26051061, 26051064, फैक्स: 011-29961284 से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्यूचुरिस्टिक सॉल्यूशन्स लिमिटेड के लिये
 हस्ता/-
 मंतीय संघ
 (प्रबंध निदेशक)
 DIN: 00115301
 स्थान: नई दिल्ली
 तिथि: 18.05.2022

एच सी सी
क घोषणा
 बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) नियम 14 के अधीन)

मैट्रिड के हितधारकों के ध्यानार्थ
मैट्रिड वीडियो विजन प्राइवेट लिमिटेड
 0 अप्रैल 1987

जिस्ट्रार ऑफ कंपनीज - दिल्ली
 रजि. 74899DL1987PTC027656

उक्त अनुसोम द्वारा जारी की गई सूचना - एच. अशोक एवेन्यू, सैनिक फार्म, नई दिल्ली-110062

कम्पनी 31 मार्च 2022

वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नाली बिक्री सूचना

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उक्त संपत्ति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नाली बिक्री सूचना

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

उत्पन्न आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओ) एवं गारंटर (ओ) को नोटिस दिया जाता है, जिनका ध्यान नौसे दी गई तालिका में दिया गया है कि नौसे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है जिसका बौद्धिक कब्जा उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 08.05.2022 को कर लिया गया है, सुरक्षाफंक्शन (UHPFL) में ऋण के असाइनमेंट के अनुसार, उक्त संपत्ति को कंपनी के बकाया की बसुली के लिए दिनांक 21.06.2022 को 'जहाँ है जैसा है', 'जो है जैसा है' और 'जो छ भी है' पर बिक्री की जायेगी।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
 बैंक ऑफ महाराष्ट्र का उपग्रह एक परिवार एक बैंक

कब्जा सूचना (नियम 8(1) (अचल सम्पत्ति के लिये))
 जैसा कि, वित्तीय परिसमापन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 02.03.2022 जारी कर श्री सुप्रियो घोष तथा श्रीमती नीलांजना घोष, मै. रेडबी डिजायन एंड डेवलपमेंट (एलएलपी) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 3,38,99,158.10/- (रुपये तीन करोड़ अड़तीस लाख नित्यानवे हजार एक सौ अन्दाव एवं पैसे दस मात्र)+2.3.2022 से अनुबंधित दर पर अप्रयुक्त ब्याज वापस लौटाने तथा अपनी देयताओं को निष्पादित करने का निर्देश दिया था। यह सूचना पंजी.डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी गई थी।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक/ गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 18 मई, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का, किम्भी भी तरह का व्यवसाय यहाँ ऊपर वर्णित राशि के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बैंक के पास गिरवी तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:
 बैंक के पास गिरवी तथा बैंक द्वारा कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:
 प्लॉट नं. 815, बी-1, बद्रीनाथ टावर, ताऊ देवी लाल पार्क के सामने, जल वायु टावर, सेक्टर-58, गुडगांव हरियाणा जो श्री सुप्रियो घोष तथा श्रीमती नीलांजना घोष के नाम में है।

तिथि: 18.05.2022

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिये

Rasayan Limited
 19DL1989PLC036264
 www.rasayan.co.in Website: www.bharatgroup.co.in

UNCLAIMED DIVIDEND TO SECTION FUND (IEPF) ACCOUNT
 of the Investor Education and Protection and (Refund) Rules, 2016 notified by the 07, 2016 and as amended from time to time.

provisions for transfer of all shares, in claimed by the shareholders for seven Education and Protection Fund Account

Rules, the Company has communicated shareholders whose shares are liable to Rules for taking appropriate action(s) to

shares, which are due for transfer on or before site at <https://www.bharatgroup.co.in/> shareholders are requested to verify the IEPF Account.

in physical form and whose shares are note that, as per the requirement of the share certificate(s) for transfer of such certificate(s) which are registered in their will stand automatically cancelled and be say further note that the details uploaded ed and shall be deemed to be adequate re certificate(s) by the Company for the t pursuant to the Rules.

claim from the concerned shareholders new to comply with the requirements set the corresponding shares and unclaimed umber 28, 2015) to the IEPF Account by the Rules.

dividend and the shares transferred to the benefits accruing on such shares, if holder from IEPF Authority/IEPF Account, under the Rules.

the subject matter, they may contact the nk Intime India Pvt. Limited, Noble Heights, Market, Janakpur, New Delhi-110058, Tel. co.in / iepf.shares@linkintime.co.in.

By Order of the Board of Directors For BHARAT RASAYAN LIMITED Sd/-